

# बालभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा – पंचम्

दिनांक -01-08-2020

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे।

**(1)व्यक्तिवाचक संज्ञा:-**जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।

जैसे-

**व्यक्ति का नाम-**रवीना, सोनिया गाँधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन आदि।

**वस्तु का नाम-** कार, टाटा चाय, कुरान, गीता रामायण आदि।

**स्थान का नाम-**ताजमहल, कुतुबमीनार, जयपुर आदि।

**दिशाओं के नाम-** उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व।

**देशों के नाम-** भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा।

**राष्ट्रीय जातियों के नाम-** भारतीय, रूसी, अमेरिकी।

**समुद्रों के नाम-** काला सागर, भूमध्य सागर, हिन्द महासागर, प्रशान्त महासागर।

**नदियों के नाम-** गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिन्धु।

**पर्वतों के नाम-** हिमालय, विन्ध्याचल, अलकनन्दा, कराकोरम।

**नगरों, चौकों और सड़कों के नाम-** वाराणसी, गया, चाँदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग।

**पुस्तकों तथा समाचारपत्रों के नाम-** रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इण्डियन नेशन, आर्यावर्त।

**ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम-** पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही-विद्रोह, अक्टूबर-क्रान्ति।

**दिनों, महीनों के नाम-** मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार।

**त्योहारों, उत्सवों के नाम-** होली, दीवाली, रक्षाबन्धन, विजयादशमी।

**(2) जातिवाचक संज्ञा :-** जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।

बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं। इसलिए ये 'जातिवाचक संज्ञा' हैं।

जैसे- लड़का, पशु-पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि।

'लड़का' से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी 'लड़कों' का बोध होता है।

'पशु-पक्षियों' से गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जाति का बोध होता है।

'वस्तु' से मकान कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है।

'नदी' से गंगा यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध होता है।

'मनुष्य' कहने से संसार की मनुष्य-जाति का बोध होता है।

'पहाड़' कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है।

गृहकार्य

- (1) संज्ञा किसे कहते हैं?
- (2) संज्ञा के कितने भेद होते हैं?
- (3) जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित